Registered Office : C-6, Road No.22, M.I.D.C., Andheri (East), Mumbai – 400 093 Website : www.vipclothing.in Email ID : <u>investor.relations@viporg.com</u> Tel : 91-2825 7624, 2825 7627 Fax : 91-22-2837 1023

CIN: L18101MH1991PLC059804

August 11, 2021

To,

The Listing Department, The Listing Department

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,

Dalal Street, Bandra-Kurla Complex

Mumbai - 400 001. Bandra (East), Mumbai-400 051.

Scrip Code: 532613 Trading Symbol: VIPCLOTHNG

Dear Sir/Madam,

Sub: Compliance pursuant to Regulation 47 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of extract of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2021 published in the following newspaper dated August 11, 2021;

- 1) Business Standard (English and Hind) and
- 2) Sakal (Marathi)

This is for your information and record.

Thanking you

Yours faithfully,

For VIP Clothing Limited

Archana Ramesh Mungunti Digitally signed by Archana Ramesh Mungunti
DN: c=IN, o=Personal,
2.5.4.20=8d511886341144s503b988ad50
88edase9d6d3f4d6161764es44155680d6
876, postafc0de-421301, st=Maharsahtra,
serialNyumber=37ae70s4c5f2a7b6bc5418
30118cb7983ba42c2888db73cas45719c9
8945e6, cn=Archana Ramesh Mungunti
Date: 2021.08.111230364 r050
bete: 2021.08.111230364 r050
bete: 2021.08.111230364 r050

Archana Mungunti Company Secretary

Membership no.: A-31071

Encl.: As above.



GOODRICKE GROUP LIMITED

CIN-L01132WB1977PLC031054
Registered Office: Camellia House', 14, Gurusaday Road, Kolkata 7
Telephone: (033)2287-3067/ 2287-8737 / 2287-1816
Fax: (033) 2287-2577 / 2287-7089
Email: goodricke@goodricke.com Website: www.goodricke.com

Extract of the statement of standalone unaudited financial results

Particulars	3 Months ended 30.06.2021	3 Months ended 30.06.2020	Year ended 31.03.2021
	Unaudited	Unaudited	Audited
1 Revenue from operations	17275	14124	8915€
2 Profit before tax	904	1617	262
3 Net profit after tax	904	1617	1952
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	804	1052	1831
5 Paid up equity share capital	2160	2160	2160
6 Other equity	2100	2100	29773
7 Earnings per share of Rs.10/- each (basic and diluted)	4.19	7.49	9.04

The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the BSE Limited week (www.bseindis.com) and on the wobsite of the Company (www.goodricke.com) The Standation unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved at the meeting of the Board of Directors of the Company held on 10th August, 2021.

For Goodricke Group Limited A. Asthana Managing Director & CEO (DIN- 90631932)



SANGHVI MOVERS LIMITED

SANGHVI CRANES

Registered Office : Survey No 92, Tethawade, Taluka - Mulshi, Pune - 411033
Tel. +91 20 2740 0700, 8699674701/2/34 + Email : senghri@senghricranes.com + Website : www.sae

. (this						
Sr. No.	Particulars	3 months ended 30 June 2021 Unaudited	Year ended 31 March 2021 Audited	3 months ende 30 June 2020 Unaudited		
1	Total Income from Operations	7,663.69	25,302,94	4,081,91		
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(335,72)	(3.195.04)	(1,719.86)		
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(335.72)	(3,195.04)	(1,719.86)		
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(251.22)	(2,242.29)	(1,287.01)		
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	320.80	(1,742.35)	(803.70)		
6	Equity Share Capital	865.76	865.76	865,76		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		70.034.23	500.76		
8	Earnings per share (before extraordinary items) (oft Rs. 2 each) (not annualised): (a) Basic (b) Divided	(0.58)	(5.18) (5.18)	(2.97)		

The above is an extract of the detailed format of quarterly unaudited financial results of the Company and the Soard of Directors has approved the above financia results and its release at their meeting held of 10 August 2021. The statutory Austrians of the Company have carried out, a limited Review of the allowand results, find with the stock-sharings. The Lift format of the Quarterly Personal Reviews are remembled on the outce containing working surprised pages, some company working warmanight containing some containing the containing and the surprised pages are contained by the containing working and the containing the containing and the containing

For & on behalf of Board of Directors of Sanghvi Movers Limited

Place : Pune Date : 10 August 2021



VIP CLOTHING LIMITED

tered Office: C-6, Road No. 22, M.I.D.C., Andheri (East), Mumbai - 400 093. Website: www.vipicithing.in Email ID: investor.relations@viporg.com; 2825 7624, 2825 7627 Fax: 91-22-2837 1023; CIN: L18101MH1991PLC059804

EXTRACT OF THE UN-AUDITED (STANDALONE)
FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2021

Sr.		Qu	arter Year En	ded	Year Ended	
No.	Particulars	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited	
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	
1	Total Income from Operations (Net)	2,404.15	4,256.85	1,777.02	14,511.8	
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(397.61)	(22.04)	(505.01)	(102.23	
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(397.61)	(22.04)	(505.01)	(102.23	
4	Equity Share Capital	1,651.93	1,661.93	1,651.93	1,651.93	
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	11,518,56	11,853,29	11,502.50	11.853.21	
6	Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of ₹ 2/- each)					
	a) Basic :	(0.49)	(0.02)	(0.62)	(0.13	
2	b) Diluted:	(0.49)	(0.02)	(0.62)	(0.13	
7	Earnings Per Share (after extraordinary items) (Face Value of ₹ 2/- each)					
	a) Basic :	(0.49)	(0.02)	(0.62)	(0.13	
	b) Diluted :	(0.49)	(0.02)	(0.62)	(0.13	

The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Standation Un-audided Flannicial Results for the quarter ended June 30, 2021 is available on the Stock Exchange websites. (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on the Website of the Company at www.vjeclothing.in.

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting he Audust 10, 2021.

For VIP Clothing Limited Sd/-Sunii Pathare Chairman & Managing Director

Date : August 10, 2021 Place : Mumbai

Branch 'Asis Bank Ltd., 1s Floor, Marcis Tower, Opp. 2P Office, O. P.O. Road, Trimbak Nako, Nashis. 420021

[Under S. 13 (2) of Securitisation And Reconstruction of Financial Trishul. 3rd Floor, Opp. Samethreaver Temple, Lew Oxford Carden, Ellubridge, Ahrnedabad - 380006.

The accounts of the following borrowers with Axis Bank Ltd. bas been classified as NPA, the Bank issued notice under S. 13(2) of the SARFAESIAct on the dates mentioned below. In view of the non-service of notice on last known address of below mentioned Borrowers/Co-borrowers/Mortgagers/Guarantors are called upon to pay to Axis Bank Ltd. within 60 days from the date under the loady and other greaters are called upon to pay to Axis Bank Ltd. within 60 days from the date under the loady and other greaters with a service and the service and other greaters, and other greaters are called upon to pay to Axis Bank Ltd. within 60 days from the date under the loady and other greaters, and other greaters, as security for borrower's obligation under the saving of the greaters. As security for borrower's obligation under the saving of the greaters, and other greaters, and other greaters are called upon to pay to Axis Bank Ltd. within 60 days from the date and greaters, and other greaters, and other greaters are called upon to pay to Axis Bank Ltd. within 60 days from the date of payment, under the loady of the greaters, and the application of the greaters and the payment of the greaters and the greaters and the payment of the greaters and the payment of the greaters and the greaters and the payment of the greaters and the greaters are called under security referred to in this notice without prior written consented our Ba

Sr.	Name and Address of the Borrowe	r/Co-borrower/Mortgagor/Guarantor	Outstanding Amount in Rs.			
No.	Type of Loan / Date of Demand Notice		Date of NPA			
1	Bunglow, Shahu Nagar, Shivshakti Chow CIDCO, Nashik- 422009, Also At- Flat	Nikhli Ravindra Bhamare, Both R/o 14 /k. Ashirwad Bunglow, Near Samaj Mandir, No. 2, Vaishnav Apartment, B/h. Fresh up ashik- 422009. Also At - Flat No. 14, Balaji Link Road, Nashik-422009.	Rs. 9,38,698/- (Rupees Nine Lakh Thirty Eight Thousand Six Hundred Ninety Eight Only) as on			
	Type of Loan : Power Home Bre	Date of Demand Notice : 22/04/2021	Date of NPA: 10/12/2020			
	Nashik, Tai. & Dist. Nashik, within the limit	Morfagaged property: All that piece and parcel of Property Fist No. 14, Admessuring Built up Area 45.45 Sq. Mtr. I.s. 489 Sq. Ft., on Third Floor, in a building known as 15alai, Lawm Appartment, constructed on Plot No. 17, out of Survey No. 1581; alwayed stringer-Sappur, Nashik, Tal. & Dist. Nashik, within the limits of Nashik Municipal Corporation and bounted as: East - Fist No. 17, West - Side Margin & building.				
	1. Mr. Ashok Gajanan Sapisal, Z. Mrr. Kalpana Ashok Sapisal, Bishi Nu Roum No. 494, MHI Golony, Opu, Jiannata School, Story, Nashin - 422007, Also Ara Room No. 1854. Nildmars Society, MHB Colony, Near Sail Babis Mandel, Sapur Colony, Sapur, Massin-422012, Also Ar-Fielt No. 07, Stiff Foot, Sail Darshan Apartment. Plot No. 7-8, S. No. 31/6/2/1 to 4/h, Vishwas Nager, Ashok Nager, Sattur, Nashin-422012.		Five Hundred Ninety Eight Only) as on 17/06/2021			
ÿ	Type of Loan : Power Home Loan	Date of Demand Notice : 21/06/2021	Date of NPA: 13/04/2021			
	Mortgaged property: All that piece and parcel of Flat No. 7, Admeasuring Bult up Area 475 Sq. Ft. Le. 44, 14 Sq. Mtr. on Stitt First floor of building known as Sa Darshan Apartment, constructed on Plot No. 7 + 8, out of S. No. 3/18/2/11 to 4/A, stuated at Village - Pimpalgaon Bahula, Nashik, Tal. 5 Let Nashik within is first of Nashik Municipia Corporation, and bounded as per Approved Building Plan					
	Mandir, Panchvati, Nashik-422011. Also At - RuPo. Pimpalse, B/h. Prathmik Vidya Mandir, Tal-Niphad, Disl-Nashik-422302. Also At - Flat No. 2. 1st Floor Sai Anandir.		Rs. 16,12,133/- (Rupees Sixteen Lakh Twelve Thousand One Hundred Thirty Three Only) as on 17/08/2021 together with further contractual rate of interest thereon 68 the date of payment.			
	Apartment, Agartakali Shiwar, Nashik-422	2306.				

ang known as 'SAIANAND APARTMENT', constructed on Survey No. 25 Hissa No. 1(Part), situated at Villago Agartakali, Mashik Tido in a hikk within the limits of Nashik Municipal Corporation, and bounded as :- East - Flat No. 3 & 4, West - 12 Mt, Road, South - Side Margin, North lony Road. 1. Mr. Pankal Madhukar Dange, Rio. - Fiat No. 03, Shree Krupa Apartment, Sr. No. 182, 23.38,957/- (Rupees Twenty Three Lakh Thirty 327, Piot No. 34 + 35, Near G.D. Sawant Collage, Pathard, Nashik-422010, Eight Thousand Nine Hundred Firty Seven Only) as on 24. M. Madhukar Tukiahram Dange, Rio-Ganesh Nagay, Telephone Colony, Near 170/62021 together with further contractual rate of Telephone Colony, Opp. Khamkar Industries, Near Tukaram Hospital, Ganesh Nagar Gulshan Road, Akola-44001.


Type of Loan : Asset Power Bre Date of Demand Notice : 21/06/2021 Date of NPA: 12/05/2021

Mortgaged property: All that Piece and Parcel of the Property bearing Non Agricultural Western Side Land Admessuring 2632.6 Sq. Ft. Le 244.52 Sq. Mt. Out of Piot No. 4, Out of Survey No. 91/fb, Situated at Mauje - Malkapur, Talik Dist, Akola and within the limits of Akola Municipal Council and bounded as - East-Piot of Mr. Lawre, West-Piol No. 3, South- Layout Road, North - Service Lane.

te : 10/08/2021 nce : Nashik

00 60

00 00



POSSESSION NOTICE (SECTION 13(4)) (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

WHEREAS The undersigned, being the Authorized Officer of the Canara Bank, under Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) I hereinstate referred to as the act) and in serioise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Indexement) Rules 2002, I seval a Demand Notice on dates mentioned in below table calling upon the borrowers to repay the amount as mentioned spainst following account within 50 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers against onlowing account within bid days from the date of receipt of the said notice,

The borrower hard plated to repay the amount, notice is shereby given to the borrower and the quality in the said Act, read with Rule 8.8 of the said rule on this dates mentioned in below the like. The borrower is particular and the public legerant are hereby customed not to deal with the property and any dealings with the property. The borrowers attention is invited to the provisions of Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

SME EMASSIK BRAICH!

Name of Borrowers / Guarantors	Amount due to Bank	Date of Demand Notice	Date of Possession Notic
1) Smt. Komal Samadhan Goialt	Rs.10,70,143.90/- (Rupees Ten Lakh Seventy Thousand One Hundred Forty Three and Ninety Palse Only) and thereon interest	20/04/2021	09/08/2021

Description in the immerable property: First No.3, are admeasuring 4.13 or 3, Mirz (Built-lug) on the First Floor in the building No.9 in the Sixth Heasing Schame, Meliphanhood, Arman seeker, Type MilloyPFF, distulated 4.000, Mellatic. Taukis and District Manklis Mills the limits of Manhit Manicipal Corporation and within sub-registration Disrict Nashik and bounded as under - Roundaries : East : HIG/ID/FF/IGN/IGK, West : Open Space, North : Donc South : Open Space

Name of Borrowers / Guaranters	Amount due to Bank	Date of Demand Notice	Date of Possession Notice
M/s. Sheetal Engineering Works Provider Mr. Laljeet Palakdharl Yadav	Rs.31,94,342,03/- (Rupes Thirty One Lakh Ninety Four Thousand Three Hundred Forty Two and Three Paise Only) and thereon interest	20/04/2021	09/08/2021
Bernald and the state of the st	200 a Carrotte and a		

Preservition of the immersable property: industrial Gala No. 349, area admeasuring 43.47 Sq. Mirs (Built-up) on Second Floor in Building known as "Mulay 1-Square Industrial Complex" constructed on all that piece and parcel of Lease Hold Land Bearing Pick No. 3 area admeasuring 15015.00 Sq. Mirs. Shuaked at village Ambad. Ambad MIDC Industrial area. Ope Stemens Company, Mashik, Tal & Dist-Nashik. Within the limits of Mashik Municipal Corporation and within Sub-Registration and Registration District Nashik. Boundaries: East: Fire Balcony, West: Passage, North: Gala No. 350, South: Gala No. 348

Sd/-Authorised Officer, Canara Bank



LAXMI ORGANIC INDUSTRIES LIMITED

CIN: U24200MH1989PLC051738,

Reg. Office: A-22/2/3, MIDC Mahad, Raigad 402 309 India | Tel: +91-22-49104444, Fax: +91-22-22853752

Email: Investors@laxml.com, Websits: www.laxml.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

		Consolidated					
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2021 (unaudited)	Quarter ended 31.03.2021 (audited) (Refer note 3)	Quarter ended 30.05.2020 (unaudited)	Year ended 31.03.2021 (audited)		
1	Total Income from Operations	7,406	5.213	4,041	17,731		
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,359	487	275	1,584		
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,359	487	275	1,584		
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,023	364	214	1,271		
5	Total Comprehensive Income for the period	1,013	359	208	1,267		
6	Equity Share Capital	527	527	450	527		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				10,346		
8	Earnings per share (in Rupees) per Rs. 2/- share						
	Basic Diluted	3.88	1.56	0.95	5.59		
_	Diluted	3.85	1.55	0.95	5.58		

	Diluted	3.85	1.55	0.95	5.58	
	Particulars	Standalone				
Sr. No.		Quarter ended 30.06.2021 (unaudited)	Quarter ended 31.03.2021 (audited) (Refer note 3)	Quarter ended 30.06.2020 (unaudited)	Year ended 31.03.202 (audited)	
1	Total Income from Operations	6,952	4.708	3,555	16,156	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,291	426	244	1,513	
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,291	426	244	1,513	
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	987	312	186	1,226	
5	Total Comprehensive Income for the period	977	311	186	1,225	
6 7	Equity Share Capital	527	527	450	527	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			BH IS	10,445	
8	Earnings per share (in Rupees) per Rs. 2/- share			e company		
2	Basic	3.74	1.34	0.83	5.40	
	Diluted	3.71	1.32	0.83	5.38	

480

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosuer Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results available on the Stock Exchanges website: www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website: www.laxmit.com

available on the stock exchanges website: www.bsemdiac.com and www.nseindiac.com and also on the Company's website: www.laxmi.com
The financial resulfs have been reviewed by the Audit Committee of the Board at their meeting held on August 9, 2021 and
approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on August 9, 2021.
The figures for the quarter ended March 31, 2021 are derived figures from full year audited financial statements and unaudited
financial resulfs for the 9 months period ended December 2020, which has not been subjected to limited review by the statutory
auditors. The Company has exercised necessary diligence to ensure that such results provide a true and fair view of its affairs in
The Board of Directors, in its meeting held on May 25, 2021 had recommended a dividend of Rs. 0.50 per equity share of Rs. 2/seach for the financial year ended March 31, 2022. The said dividend was approved by the shareholders in the Annual General
Meeting of the Company held on July 26, 2021 and has since been paid out.
Unprecedented rainfall on July 22 and 23, 2022 and thas since been paid out.
Expectatility intermediate manufacturing unit. Taking all the necessary safety procautions, the Company shut down the plant. The
Company is in the process of assessing damage and has begun restoration activities. The Company is adequately insured for the
damages.

damages.
The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("IndAS") prescribed under section
133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder.

450

Place : Mumbai Date : August 09, 2021





A 5.5 %

एचजीएस ने बेचा स्वास्थ्य कारोबार

हिंदुजा समूह की बिजनेस प्रॉसेस कंपनी ने बीपीईए संग बिकी सौदे पर हस्ताक्षर किए

हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस

के भीतर पूरा होने

जो शेयरधारकों एवं अन्य नियामकीय

मंजरियों पर निर्भर

का उपयोज कारोबार को बढ़ाने

के साथ-साथ कुछ

में किया जाएगा

ता हासिल करने

की उम्मीट है

डे सरकार ने विनिवेश और पहली

तिमाही के नतीजे पर निवेशकों के साथ चर्चा के दौरान कहा, 'इस लेनदेन के परिणामस्वरूप जो नकदी

हासिल होगी उसका उपयोग कारोबार को बढाने के साध-साध उन टक्षताओं

का बड़ान के साथ-साथ उन रेक्षताओं को हासिल करने में किया जाएगा जो ग्राहक अनुभव में बदलाव लाने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।' एचजीएस जिन तीन क्षेत्रों दक्षता हासिल करना चाहती है उनमें एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रक्ष्यालन शामिल हैं। के सरकार ने

स्वयालन शामिल हैं। के सरकार ने कहा कि कंपनी अपने कारोबारी मेल में बदलाव करते हुए प्रोग्रीगिकी आधारित कारोबार पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहती है। बेरिंग पीड़े को इस अध्यक्षण से अपने प्रौग्रीगिकी प्रोटेकोलियों को मजबूती देने में मदद मिलोगी। कंपनी का श्रेया आज द प्रोग्रीश

कंपनी का शेयर आज 5 फीसदी बढ़त के साथ 3,235.8 रुपये पर बंद हुआ। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का राजस्व 25.5

फीसदी बढकर 1.550.5 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान शुद्ध लाभ 137.7 फोसदी बढ़कर 117 करोड़ रुपये हो गया। शुद्ध मार्जिन 7.5 फीसदी रहा।

संक्षेप में

मेकमाईटिप ने बेची आईएग्जिगो की हिस्सेदारी

मेकमाईट्रिप ने ऑनलाइन ट्रैंबल पोर्टल आईएप्जिगो की 8 फीसदी हिस्सेदारी मौजूदा निवेशकों को 3.85 करोड़ डॉलर में बेच दी। मेकमाईट्टिप ने इस सौदे में करीब 245 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया। कंपनी ने सोमवार को नियामकीय सूचना में ये बातें कही है। इस सूचना में आईएप्जिगो का नाम नहीं लिया गया है। बीएस

महिद्रा ने 29,878 पिक अप वाहन वापस मंगाए

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने अपने पिकअप वाहनों के प्रत्रुड पाइप ठीक ढंग से नहीं लगे होने के संदेह के बीच उन्हें बदलने के लिए 29,878 वाहनों को वापस मंगाया है। कंपनी ने बताया कि उसने जनवरी 2020 से फरवरी 2021 के बीच निर्मित कुछ पिकअप वाहनों के खराब फ्लूड पाइप को बदलने और निरीक्षण के लिए इन वाहनों को वापर

कोल इंडिया का शुद्ध लाभ 52 फीसदी बटा

कोल इंडिया का एकीकृत सुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 52.4 फीसदी बढ़कर 3,169.85 करोड़ रुपये हो गया। परिवालन आय बढ़ने से मुनाफ चल्ला है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने 2,079.60 करोड़ रुपए का एकीकृत सुद्ध लाभ कमाया है।

CHANGE IN NAME

LYogesh Millind Patil No-15585271F, Rank SPR Unit 102ENG R/o A/p- Bisur, Tehsil- Miraj, Dist- Sangli Maharashtra declares that I ave changed my Son's Nam

क्रव एवं भंडार निदेशालय Directorate of Purchase & Stores

Brief Description

ITOPRIDE HYDROCHLORIDE

CITICHOLINE 500 MG TAB RF POWER METERS, RF POWER SENSORS,

RF FREQUENCY COUNTERS, DIGITAL MULTI-METERS AND BER TESTERS

Tenders are to be submitted online only. For Technical CONTACT 020 25315555 EXTN No.6 mail

रांचूर्ण निविदा दस्तात्रेण वेस्लाइट https://etenders.dpsdae.gov.in गर हेले प्रा सकते हैं गया वहाँ में अध्यनत्रेश भी किए जा सकते हैं। निविद्ध में भाग लोगे के लिए एनरोसारिक अधिवार्ड के निविद्धाने केस्ता अध्यनसम्बाद अपनुत कर्ताहें हैं। तमानीकी राह्यात्र के लिए प्रोट्ट प्राट्ट अपनिवार्ड के स्ता EXTN No. 6. विकेशाओं को हमारे जम्मीकर पोर्टांस पर प्रान्तीक करने के लिए प्रोप्तात्रिक किया प्राप्ता के

(50 MG) TABLET

4/Ref: DPS/CPU/09/D1/1279/19-20/247 e-Tender Notice राष्ट्रपति के लिए और की ओर से निवेशक, क्रम वर्ष पंकार द्वारा विस्मतिविक्त सॉनलाइ सम्पन्तित की जाती हैं / Online tenders are invited by Director, P&S for an If of the President of India for following :

Tender Number

DPS/CPU/04/ MED/37268/P

DPS/CPU/04/

नेहा अलावधी नई दिल्ली, 10 अगस्त ~ इजा समृह की बिजनेस प्रसिस मैनेजनेंट कंपनी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड (एचजीएस) ने आज कहा कि उसने 1 अरब डॉलर के एंटरप्राइज

मूल्य पर अपनी स्वास्थ्य सेवा कारोबार की बिक्री के लिए बैरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया (बीपीईए) से संबद्ध फंड के साथ एक निश्चित संबद्ध फंड के सीच एक निश्चत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने कहा है कि वह सौदा 90 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है जो शेयरधारकों एवं अन्य नियामकीय मंज्रियों पर निर्भर करेगा।

यह विनिवंश मूल्य का खुलासा करने संबंधी समृह के प्रयासों का हिस्सा है। एचजीएस ने पिछले साल हिस्सा है। एवजीएस ने पछले साल सितंबर में कहा था कि बाजार परिट्रूच और अवसरों को ध्यान में रखते हुए सभी इकाइयों के मूल्य का खुलासा करना करने के लिए कंपनी के बोर्ड ने मौजुदा कारोबार पोर्टफोलियों की समीक्षा करने के लिए कहा है। एवजीएस ने जनवरी 2020 में अपने भारतीय ब्रेस्तू यह सौदा 90 दिनों सौदे से प्राप्त नकदी

कारोबार का भी विनिवेश किया था। स्वास्थ्य सेवा कारोबार के तहत चार देशों- भारत, फिलिपींस, अमेरिका और जमैका- में करीब

20,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। विस वर्ष 2021 में इस कारोबार ने करीब 40 करोड़ डॉलर का राजस्व दर्ज किया है। इस प्रकार कंपनी के कुल कारोबार में यह करीब 53 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। वित्त वर्ष 2021 के लिए कंपनी ने 75.39 करोड डॉलर का राजस्व दर्ज किया।

सौदा पूरा होने के बाद एचजीएस बैरिंग पीई एशिया को अपने सभी सारा पुरा हान के बाद एक्जांप्स विराग भी प्रशिक्त को अपने साथे ग्राहक, परिसंगति और कर्मचारी हस्तांवरित कर देगी। इसके बाद कंपनी अपने कंज्युनर एंगेजमेंट सांस्युगंस (सीइएस), एजजांप्स हिजिटल और एचआरओं पेरोल कारीबार पर ध्यान केंद्रित करोगों जो अपनी में इकाइयों के जरित करोगों के

वैश्विक ब्रांडों को सेवाएं उपलब्ध कराती है। एचजीएस के वैश्विक सीईओ पार्थ

1,838.60 1.800 केलेंडर वर्ष 2021 की ,791.59 1.800 दूसरी तिमाही में समेकित लाभ करीब 4 गुना बढ़ा 1,761.85 1,791.5 fbrasen de site 1,791.5 fbrasen de site 1,792 1,791.5 fbrasen de site 1,791.5 fbrasen

वेदांत 20 अरब डॉलर का निवेश करेगी

अदिति दिवेकर मुंबई, 10 अगस्त

भारत में धातुओं की अगुआई में होने वाले मजबृत बढ़त के परिदृश्य के साथ अनिल अग्रवाल की वेदांत लिमिटेड विभिन्न कारोबारों में 20 अरब डॉलर तक निवेश पर विचार कर रही है

नियेक पर विचार कर रही है, विसम्में चांदी का उत्पादन दोगुना करना और स्टील की क्षमता में रोगुनी करना शामित है। अग्रवाल ने पिछे महीने बचुंअल प्रेस कॉन्प्रेंस में कहा था कि उत्पाद डोल के पूंजीरत खखें की हैं। कंपणी ने हालांकि 20 आरब डॉलर के पूंजीरत खखें आरब डॉलर के पूंजीरत खखें अरब डॉलर के पूंजीरत खखें और मंगलवार की वेदांत रिसोसेंस लिमिटिड के संस्थाक वेद्यांति रिसोसेंस लिमिटेड के संस्थापक व चेवरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, एल्युमीनियम में हम पहले ही भारत के सबसे बड़े उत्पादक हैं। चांदी का उत्पादन दोगुना करने का हमारा इराटा है क्योंकि यह न सिर्फ बहुमुल्य धातु है बल्कि हाईटेक इंडस्ट्री व अक्षय ऊर्जा में भी इसका इस्तेमाल होता है।

स्टील में भी हमारा इरादा उत्पादन क्षमता दोगुना करने का है। अग्रवाल वेदांत की 56वीं

सालाना आम बैठक में बोल रहे सालाना आम बेठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में कंपनी ने सरकारी खजाने में 2.7 लाख करोड़ रुपये का योगदान किया है। उन्होंने कहा, फंकर व उसके फेरो एलॉय कारोबार का अधिग्रहण हमाय विशाखन और भविष्य की तैयारी का एक और उत्तहारण हैं। का एक और उदाहरण है।

का एक और उदाहरण है। तेल को मांग पर उन्होंने कहा, बेदांत तेल व गैस का देसी उत्पादन 50 फीसदी बढ़ाने गर विचार कर हों है ताकि मांग पूरी हो सके। कंपनी ने अब तक का सबसे ज्यादा एबिटा 27,341 करोड़ रुपये दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर 30 फीसदी बादा है। विद्या करें ज्यादा है। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी का राजस्व 86,863 करोड़ रुपये था, जो सालाना आधार पर 4 फीसदी ज्यादा है।

इंटरनैशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, बेदांत का परिचालन भारत की जीडीपो में 1 फीसदी

व्हर्लपूल का करोपरांत लाभ 62 फीसदी बढ़ा

Due date of submission UPTO 2.30 pr

06/09/2021

23/08/202

होम अप्लायंसेज क्षेत्र की प्रमुख कंपनी व्हर्लपूल ऑफ इंडिया ने अप्रैल से जून तिमाही के दौरान अपने करोपरांत लाभ (पीएटी) में 62 फीसदी की

अपने करोपरांत लाभ (पीपट्टी) में बंद प्रशासदी की वारान अपने करोपरांत लाभ (पीपट्टी) में बंद फोसादी की वृद्धि दर्ज की हैं। विसाही के दौरान उसका मुख्य साल पहले की समान अवधि में 15.8 करोड़ रुपये रहा था। विमाही के दौरान कंपमी का परिचालन पाजस्व एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 30.5 फोसरी बढ़कर 1,341 करोड़ रुपये हो गया। 15 लांकि कंपमी ने कमजोर आधार पर अपने पाजस्व में वृद्धि दर्ज की हं ब्योंकि पिछले साल पाजस्व में वृद्धि दर्ज की वर्गांकि पाजस्व में वृद्धि स्वर्धित साल कंपमी का परिचालन राजस्व में वृद्धि रुपये के मुकाबले कंपमी का परिचालन राजस्व में वृद्धि रुपये के मुकाबले कंपमी का परिचालन राजस्व क्यांह रुपये के मुकाबले कंपमी का परिचालन राजस्व कंपमी कंपमी का परिचालन राजस्व कंपमी का परिचालन राजस्व कंपमी का परिचालन राजस्व कंपमी कंपम भारत सरकार Government of India परवानु कर्जा विभाग Department of Atomic Energy

कमजार रहा। हालांकि जून 2019 और जून 2020 दोनों तिमाहियों के मुकाबले कंपनी के शुद्ध लाध में बृद्धि दर्ज की गई जिसे तैयार माल की इन्वेंट्री में उल्लेखनीय बदलाव, कार्य प्रगति पर होने और स्टॉक इन ट्रेड से बल

जापान की टेक्नोपो की हुई रोबोसॉफ्ट

पीरजादा अबरार बेंगलूरु, 10 अगस्त

उडुपी की डिजिटल बदलाव समाधान फर्म रोबोसॉफ्ट उद्धुपा की ।डाजटल बदलाव समाधान फर्च रोबोसॉफ्ट टेक्नोलॉगिज ने 805 करोड़ रुपये में कंपनी की विक्री के लिए जापान की कंपनी टेक्नोप्रो होल्डिंग्स के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझात पर हस्ताक्षर किए ही कंपनी के प्राह्मकों में ऐपन क्षेत्र केपान केप जाना जाता था। अपने पहले ग्राहक ऐपल के साथ रोबोसॉफ्ट ग्राहक एपल के साथ रावासाध्य-ने तमाम सॉफ्टवेयर समाधान तैयार किए। तब से इसने दुनिया भर में ग्राहकों की मांग अनुरूप डिलाइस झुइलर, गेम, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और इमेजिंग सॉफ्टबेयर विकसित

अधिग्रहण के बावजूद रोबोसॉफ्ट मुख्य कार्याधिकारी

रवि तेजा बोमिरेड्डीपल्ली के नेतृत्व में मौजूदा प्रबंधन टीम को बरकरार रखेगी। बोमिरेड्डीपल्ली को केपनी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के तौर पर पदोन्नति भी दी जा रही है।

दी जा रही है। प्रिकास प्रवे प्रस्थापक एवं प्रकेष निरंपक रोहित भट्ट ने कहा, 'पिछले दो दशक के दौराना रोबोसोग्ट का सफर असाधारण रहा है और इस दौरान तमाम उतार-चढ़ाव के सावजूद उसने विकास किया है। एससेट केपिटल और कलारी कैपिटल के साथ साझेदारी ने हमें दमदार बृद्धि के दौर में पहुंचा रिया और से काफी खुश हूं कि हम संपनी की कमान टेक्सीयों सीस प्रमुख की कमान टेक्सीयों सीस प्रमुख की कमान टेक्सीयों सीस प्रमुख की हमान टेक्सीयों सीस प्रमुख की हमान देक्सीयों सीस प्रमुख की हमाने की हमाने से हमाने से हमाने की हमाने से हमाने की हमाने से हमाने से हमाने की हमाने से हमाने हमाने से हमाने हमाने हमाने हमाने से हमाने ह वैश्विक कंपनी के हाथों सौंप रहे हैं।'

टेक्नोप्रो टबनापा क अध्यक्ष, प्रतिनिधि निदेशक एवं सीईओ ताकेशी यागी ने कहा कि उनकी कंपनी रोबोसॉफ्ट की तेज वृद्धि, मजबूत नेतृत्व टोम, उभरती प्रौद्योगिको में विशेषज्ञता और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंधों को देखकर काफी उत्साहित है।

'दूरसंचार में व्यवहार्यता जरूरी'

भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मितल ने कहा है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूरसंचार क्षेत्र द्विधुवीय न होने पाए। मित्तल ने उम्मीद जताई कि सरकार और नियामक दूरसंचार क्षेत्र में व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे ताकि यह निवेश के लिए एक व्यवहार्य क्षेत्र बरकरार रहे। मित्तल ने कहा कि दूरसंचार

मितेल न कहा कि दूरसभा उद्योग को अपना ग्रीजुदा अन्न दांचा बरकरार रखने के लिए काफी मदद की आवश्यकता हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की भूमिका कहाँ अधिक व्यापक हो गई है और इसलिए इसकी चुनौतियां भी बड़ी हो गई हैं।

बढ़ी हो गई हैं।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए
एयरटेल की व्यक्तिंक रिपोर्ट में
मितल ने कहा कि विद्यसत
संबंधी कानूनी गुरों के साथ-साथ
अरवधिक पुंजी निवेश वाले
पियेश में कम रिटर्न और
लेखर मूलन निर्भाण जैसे मुद्रों
ने इस क्षेत्र की चुनीतियां बढ़ा दो
हैं। उन्होंने कहा, 'उद्योग को



सुनील भारती मित्तल ने उम्मीद जताई कि सरकार और नियामक दूरसंचार क्षेत्र में व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे

अपना मौजूदा 3+1 हांचा बरकसर रखने के लिए लंबे समय तक मदद की आवश्यकता है। तक नंदर का आवश्यकता है। साथ ही कंपनियों को निवेश पर एक सम्मानजनिक रिर्टन अर्जित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।' मितल ने कहा कि भारत दीर्घकालिक निवेशकों के लिए

एक पसंदीदा गंतव्य रहा है। उन्होंने कहा, 'हमारे पास भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था में वैश्विक अग्रणी देश बनाने का

अवसर मौजूद है। हमें इन अवसरों को भुनाने के लिए नीतियों को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। साथ करन को आवश्यकता है। साथ ही निवेश, उद्यमशीलता और नवाचार को सहयोग के जर्य बढ़ावा देने की जरूरत है।' उन्होंने कहा, 'एयरटेल अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।'

तैयार है।"

पिछले 25 वर्षों के दौरान
दूससंवार क्षेत्र भारत और उसकी
अर्थव्यवस्था में बदलाब लाने के
लिए एक उत्पेरक की भूरिका
निभाई है। मितल ने कहा कि
वैशिक्त महामारी के दौरान भी
इस क्षेत्र ने उत्पेरका
निभाई और एक अरब से अधिक
लोगों की आपसी संपर्क
बरकसर रखने में मदद की।
उन्होंने इसे एक उत्कृष्ट उपलब्धि

करार दिया। मितल ने कहा, 'हम हमेशा बरकरार रहने वाली चुनौतियों के बीच वित्तीय समझदारी दिखाते बाध । गताय समझत्या दिखात हुए अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कंपनी के बहीखाते की मजबूती लगातार बरफतार हैं जिससे वृद्धि के तिए रणनीतिक तौर पर निवेश जारी रखने की गुंजाइश बनती हैं।

एवरेडी ने नियुक्त किया संयुक्त एमडी

एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने कहा कि उसने

(vip)

Date : August 10, 2021 Place: Mumbal

19.87 फीसदी के साथ सबसे बड़ा हिस्सेदार

शुभमय साहा को संयुक्त प्रबंध निरंशक नियुक्त किया है। यह करन उस घरनाक्रम के एक साल बाद देखने को मिला हैं जिसके तहत डाबर के प्रवर्तकों बर्मन परिवार एजेंद्री में शुभमय साहा कंपनी के प्रबंध निरंहक हैं। मुभमय साहा कंपनी को बढ़त के अगले में ले जाने में सक्षम होंगे।

आय आकलन की हो समान व्यवस्था

माइक्रोफाइनैंस सेक्टर में स्व-नाकुकाकाकुनस्त संनद्दरं न स्व-नियामक संगठन 'सा-धन' ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को भेजे अपने सुज्ञावों में कर्जदारों की आय के आकलन के लिए एक समान व्यवस्था की मांग की है, जिसका इस्तेमाल इस क्षेत्र के सभी ऋणदाताओं द्वारा किया जा सके। पिछले महीने अपने परामशं पत्र में आरबीआई ने कहा था कि सभी विनियमित संस्थाओं को घरेलू आय आकलन के लिए निर्धारित कारकों की गणना के लिए बोर्ड-स्बीकृत नीति होनी चाहिए। सा-धन ने कहा है कि उसने सटीक आय आकलन सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र को मदद प्रदान करते हुए एक क्रेडिट एसेसमेंट टूल विकसित

कई विश्लेषकों का कहना था क आय आकलन के लिए साझा डांचा निधारित नहीं किए जाने के लिए आरबीआई द्वारा सकारात्मक पहल की गई थी, और इसके बजाय व्यक्तिगत संगठनों पर स्वयं आकलन की जिम्मेदारी छोड़ दी गई थी। कर्जदार के नजरिये से, अच्छी बात यह है कि पारिवार को आय की गणना होगी व्यक्तिगत

सझाव दिया है कि 'राशन कार्ड सुझान दिया है कि 'रासन' कार्ड' का इर्रेसाल प्रसारी अधिक होने की रिस्तित में परिवार की पहचान के लिए आधार के तीर पर किया जाना चाहिए। आराबीआई के अनुसार, परिवार की परिभाग (जिस्ते नैशनल सैम्पल सर्वे अर्जुसार, परिवार की परिभाग (जिस्ते नैशनल सैम्पल सर्वे अर्जिस्त से लिया गया) है - सामान्य तीर पर साथ रह रहे और साझा कियन से भोजन लोने वाले लोगों का प्रसार दियारों पर लोगों का समूह, जिससे एक

परिवार बनेगा। सा-धन ने कहा है कि जहां प्रवासी श्रमिक एक साथ नहीं रहते त्रवाता त्रानक एक साथ नहां रहत होंगे और एक आम रसोई का इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए वे पारिवारिक आय में योगदान करते पात्वास्त्र आय न सहस्यों को हैं। 'इसलिए, इन सदस्यों को अलग किया जाना अनुचित पारिवारिक आय आकलन को अलग किया जाना अनुचित पारिवारिक आय आकलन को बदावा देगा।'हालांकि ग्रामीण आबादी का करीब 19 प्रतिशत और शहरी आबादी का 33 प्रतिशत हिस्सा राशन कार्ड से बंचित हैं। उनका कहना है, 'यदि राशन कार्ड उपलब्ध न हो. तो ग्रेसी राशन काड उपलब्ध न हा, ता एसा स्थित में आधार को पहचान की तौर पर अनुमति दी जानी चाहिए। यह जरूरी है, क्मोंकि इससे माइक्रोफाइनैंस संस्थानों को यह निष्कर्ष निकालने को अनुमति दी जा सकती है कि परिवार क्या है।

बिजनेस स्टैंडर्ड मुंबई संस्करण

विजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट रिसीमेटर के लिए प्रकारण एवं मुदक संगील खेडांतर द्वारा के संगट मीडिया पढ़केट दिसीमेटर, 22, तीमा एम्पाइडीसरें, रीटीसी इंडीट्यूयल एरिया, विश्व नगर, दीमा, नगी मुंबर्ड-400708 से मुदित ए एवा/4 एएं आई/5, तिसिंदरा एक पैट्यान संगट, विकास सेंचुरियल के सामाने, पी भी मार्ग, वसी मुंबर-400713 से प्रकाशित

अगरासमाई के WAHNA/ORGANIA)3
पाका पंपालक को सारामान्यामान्यामा पर शोरत जो पानाले हैं।
देशीयोग - 035-9701544 10071560 किया- 035-9701550
हार्वाविकासन और र कोहीस्थान के लिए कुप्यात रोपके करें,
तुस्री मानावर्गी किया- राजा किया- राजा क्षित्र हार्वाव्य स्थान कियाविकास राज्य विकास के प्राथम, की भी माना, वार्ती, मुंबई 400 013
वा 35575 पर एसएमएएस वारी REACHES

विशायक्षेत्रायः, विश्वास्त्रा रहिर्द्ध में प्राथमिक स्वाधान्त निर्मा क्षेत्र के विश्वास्त्र स्वाधान्त स्व

VIP CLOTHING LIMITED

Registered Office: C-6, Road No. 22, M.I.D.C., Andheri (East), Mumbal - 400 093. Website: www.vipciothing.in Email ID: investor.rolations@viporg.com; Tel: 91-2825 7624, 2825 7627 Fax: 91-22-2837 1023, CIN: L18101MH1991

EXTRACT OF THE UN-AUDITED (STANDALONE)
AL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2021

Sr.		Qu	arter Year Er	ided	Year Ended Audited	
No.	Particulars	Un-audited	Audited	Un-audited		
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	
1	Total Income from Operations (Net)	2,404.15	4,256.85	1,777.02	14.511.84	
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(397.61)	(22.04)	(505.01)	(102.23)	
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(397.61)	(22.04)	(505,01)	(102.23)	
4	Equity Share Capital	1.651.93	1,651,93	1,651.93	1,651,93	
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	11.518.56	11,853.29	11,502.50	11,853.29	
8	Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of ₹ 2/- each)		11,000,00	77,502.50	11,003.29	
	a) Basic : b) Diluted:	(0.49)	(0.02)	(0.62)	(0.13)	
7	Famings Per Share (after extraordinary Items) (Face Value of ₹ 2/- each)	(0.49)	(0.02)	(0.62)	(0.13)	
	a) Basic : b) Diluted :	(0.49)	(0.02)	(0.62)	(0.13)	

The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 filled with the Slock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Standalone Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 is available on the Stock Exchange websites, (www.nssindia.com and www.bseindia.com) and also on the Website of the Company at www.rejoribinigni. The above reveils have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 10, 2021.

For VIP Clothing Limited Sd/-Sunil Pathare Chairman & Managing Director

1269.15 6.27 38850 648 13340 414 RESPONING

BSE **54,554.66** +151.81 NSE 16,280.10 +21.85 कोल इंडियाला दुसऱ्या आर्थिक तिमाहीत

1,008.40 -11.62 HINDOXEXP 150.55 -9.99 FLUOROCHEM 1,559.15 -9.38

चांदी: १६३,३३० 🗼 97.45

परकीय गुंतवणुकीचा ओघ अजूनही कभी असल्याने डॉलरच्या तुलनेत रुपयात १७ पैशांची घसरण

वाद होण्याचा 'मुडीज'चा अंदाज 📆 📆

कोरोनावरील औषधाची ट्रायल सुरू होण्याची शक्यता 🔲 ३० जूनपर्यंत ३, १७४ कोटींचा निव्वळ नफा

केंद्र सरकार कठोर पावले उचलणार ; ग्राहकांच्या हितांना प्राधान्य

असल्याचे सांगितले आहे. बड्या ई-कॉमर्स कंपन्यांची बाजारंदेवर पट्ट पकड असल्याने प्रारकोना त्योच्या वस्तु घेन्यातिबाद पर्याप नसतो, अनेकबा या सेवा भी हिस्साय प्रयो तथा। अन्यस्य भागा अन्यस्य अन्यस्य भागा अन्यस्य भागा

पान्यस्य परफ्का स्वरुपान्य वदा इस्त्रावित ई केमार स्वरूपानांग्रेस उस्त्रस्य प्रस्ते सेन्द्रस्य प्रण्डे इस्त्रप्राप्तं सेन्द्रप्त बंदी पालपायो स्तृत् आहे, इसा सेन्प्राये राष्ट्रानाचा वापा करून विदिष्ट विक्रात किंवा विकाराच्या प्रदालमा ई स्पॅमर्स प्रदेशकोवस स्तृत् क्रिया तेना विकाराच्या आसान्त दिने आहे, वासुक्रे आहलांकोव इंतर पार्चा राता सम्बापो आसा संत्रप्त बंदी पालपायो स्तृत्य ई-कोस्स सुमारणान्य आसाच्या वेद्यांस वार्षिण्य आणि उद्योग संत्री विक्षुप गोवार बांगी सांगितले.

परवडणाऱ्या किपतीत दर्जेदार उत्पादने ई कॉगर्स केपन्यांकडे आस्टेरण मिद्राजीत पाकडेडी सरकार तथा रेणार असल्याचे गोयल प्देशाले. व्यक्तिस्था व्यक्तिस्था अर्थे. भारतात

जनाव्यक्तमः सह्य कोटी विश्वकीक्त विश्वकीक विश्वकी असून तथानूप १ ने १ १ कोटी लोगांनी प्राथम पिकाली, पात्र अनेका प्राथम केटियांनी प्राथम केटियांनी क्रांत्र कार्या प्राथम केटियांनी क्रांत्र कार्या प्राथम केटियांनी क्रांत्र कार्या प्राथम केटियांनी कर्मा क्रांत्र कार्या प्राथम कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा क्रांत्र कार्या प्राथमित क्रांत्र क्रा

जवळात्रास गांक हाता; गांव तथा तो रिक्षू रावरण गार्थः। भारती इ.जांदेरण्यो भारती आजही करपन गारिक्णे कंपनीच्या वार्वासह ६२२ आज २३ रुपयांच्या वार्वासह ६२२ रुपयांचा यंद भाव राख्यकाः। ३६ रुपयांचा यंद भाव राख्यकाः। ३६ रुपयांचा यंद्र भाव राख्यकाः। ३६ रुपयांचा यंद्र भाव राख्यकाः। ३६ रुपयांचा यंद्र इत्रास्थः।

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सेन्सेक्समध्ये १५१ अंशांची वाढ पुनर्विकासाची परवानगी द्या!

भाजपचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना साकडे

पूंचां, ला. १० : वागानिक सेवार बाजाता समित्र संका अस्पूर्ता जाक मार्गाम प्रेशस्थात्म (निराजिक्सप्रेस भागक वाह क्षांत्र) जाक संस्वेष्य १५१ जंगांनी; तर निर्माटी २१ जंगांनी गावरणः विस्तरकारीः सेव्यंत्रस्थ १५१ जंगांनी; तर निर्माटी १६,४० जंगांवा स्थितसम्बद्धः आण् भागात प्रश्चलकार चार्चा पेवारी संस्तेष्य जनाव्यास ५५,४०० च्या जनाव्यास निराजिक्स वाही पेवारी स्थानस्थ पुंचाँ, ता. १० : रिहार्ज बैकच्या सरकतीमुळे रखडलेली जुन्या इमारतीच्या स्वयंपुनविकासाची योजना पुरस सुरू करावी, या गाराजीसाट्या गाळा मुख्यसंत्री देवेद पाण्योगावी गार्ज पुष्पानी तेवेद प्रकारोग आणि विध्या परिपेतील विदेशी पर्वारोज प्रतीन देवेद प्रतीनी पर्वारोज प्रतीन देवेद प्रतीनी प्रतीन प्रतीन प्रतीन पुराव प्राथमीति प्रतीन प्रतीन प्रकारी प्रतीन प्रतीन प्रतान प्रकारी प्रतीन प्रतानी गृहिर्गामां संस्थान कर्ने वेदे का हरेते. याव जंगर रिक्टर्स केंद्री वार संदेशी प्रतीन प्रतान प्रतान प्रतीन प्रतान प्रतीन प्रतान प्रतान प्रतान प्रतान प्रतीन प्रतान प्रतान

'रुपी'च्या ठेवीदारांना लवकरच पैसे मिळणार



ग्राहकवर्ग, कार्वपद्धती परस्परांना पूरक दोन्ही बंकांची मध्यवती कार्वालये गुण्यातच आहेत. त्यांचा ग्राहकवर्ग आणि कार्यच्युत्ती परस्पराना पूक्त आहे. स्वपून आपण रुपी बेकचा प्रश्न मागी लावावा. अजी विनती केल्याचे गिरीश बायट बानी सागितले.

लेकसभेतीतः चर्चमूर्या सेम परत पिक्रमात आस्थाये स्थितात्मार वर्षमी पेट पेक्रम याच । निश्चमत्म पर्चा केन्द्री होती, वाक्चे । त्रेच पेपूर प्रमाद ग्लासले की, योग्यासी युक्त पर्वादेश बीजातात्म्या योग्यासी श्रीक्षात्मील गेपूर हाले. स्वादम वीकांसील जेवादाताच्या प्राप्तात्मी सोम्बासील गेपूर हाले.

देवाना अध्येगंत्री सीतारावन यांगे रुपी विकासायका रहारू वीधांत्रील याच त्यांकारमीरण्या जेलीयारांना राज्या अर्थाचे प्रति प्रत्याना याचा प्रत्याचित्राले, असे आस्वामार हैतरे, चोराण समस्यानी की आर्थाच्याच्या आस्वामार्थ करेंद्री की स्वाप्त प्रत्या आसेत. प्यापांत जेलीयारांचा अस्याय आसेत. प्यापांत जेलीयारांचा अस्याय आसेत. प्यापांत जेलीयारांचा आस्याय आसेत. प्यापांचा मार्थियकामुळे

पहिचान देखें Utrus = 2 The part of the pa

সূত্রিশ্রেক।
ক্রিকিন্তা নুক্তার ক্রিকেন্স কর্মানিক।
ক্রিকেন্স ক্রিকেন্স ক্রিকেন্স কর্মানিক।
ক্রিকেন্স কর 206 of fourth officers in a not with the state of the sta

grant et l'estature (et l'estature) (estature) (estatu

প্রমান্ত কর্ম বিকাশ এনিকাশ (মাক্রনা)
(আলাকু মানবা বিকাশ
বানি মাক, ক্ষেত্রতা অধীন কর্মা, ক্ষেত্রতা আলাবানকালা নী
(বিন্দা) করু সুবাধী স্কানত ইংকালা ই মান বানিক ক্ষরালা

क महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

में. मुख्यपस्त प्रश्तीकवीन क्रा. कि. मांच्या गट क्र. १३६, गाव- अल्कागाव, कहारीत खालगुर, कि. पायण्ड. महत्याहु वैधील कीमन मामो भेडिकाल बेस्ट ट्रॉटर्सर फॅसिसीट (CBMWTSDF) सह रोटरी गड़ी इन्सिनोटर (2000 kg/hr * 2 Nos.), ऑटोक्स (CBMWTSDF) we then by director (2000 Kg/hr 2 Nos.), where the growth of the order of the grant of the gra

सही/-उप-प्रदेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रयुक्त निवंत्रम मेंडळ, राव



डेटा सायन्समधील करिअर

डेटा सायन्समधील कोरिअर

पूणे, ता. ६०: आपटो, देकिकोः
प्रिक्त कार्योः स्थान केर्युटस, दिव्ह आर्थे
प्रिक्त कार्योः स्थान केर्युटस, दिव्ह आर्थे
अर्थः या प्राण्याभ्य मान्याभ्य महत्या प्रत्याक्ष्य गाव्य आर्थः या प्राण्याभ्य स्थान क्षित्र कार्या प्रत्याक्ष्य कार्याभ्य कार्याम्य प्रत्याभ्य स्थान क्ष्याभ्य स्थान स्थान क्ष्याभ्य स्थान स्

शेतीसाठी फायद्याचे ड्रोन तंत्रज्ञान

पुणे, ता. १० : शेरीकेशास्त्री होत नंबकानमा जाहेत. या रहामानिकारी गार्मस्ति करणारे आसूत त्याचे फायरे दिया जागले जाहेत. या रहामानिकारी गार्मस्ति करणारे अंत्याहत कर्यकाराज अभिवारी ता. १) आरोपिक बढी काहे, यह हो काल करकी काम करते, व्यावदे करणारे, होनामा पासराता आक्रयाची काळकी कहे, यह विकास करते का व्यवदे करणारे, प्राचना पासराता आक्रयाची काळकी हुन संबीचित वास्ता, होन करोरी करणारे आवश्याची काळकी प्रधारीविक्यों मार्गस्तर्म संबैत, प्रीठ करकी हुक्क चारको स्परी.

घरगुती चवीचे झणझणीत मसाले बनवा

प्रमुत्ती विविध प्रकारणे हाणावणीत समार्थे सर्वाचिण्यासंबंधी अनित्साहत सर्वाच्याक १९ ऑगस्ट रोजी आयोजित करते जाते. त्यात पाण प्रकाशित प्रमार्थे कर्म बनावी स्वाचित्र प्राथमिक्या अर्थेक्य प्रविच्या अर्थेक्य प्रकाशनान्त्रमा प्रमार्थ्यक पाण प्रकार, विपत्ति, कार्य प्रमार्थे, स्वर्ध स्वाच्या आणि प्रकाशां प्रमार्थ्य प्रपादींच्या समार्थेक्य जाते, प्रतिकाशित होहस्य प्रचारी स्वर्थे, होवसी १०११ स्वर्थ स्वर्थित समार्थेक्य जाते, प्रतिकाशित होहस्य प्रकाशित स्वर्थे स्वर्थे,

शेतमालाचे काढणीपश्चात व्यवस्थापन

शेतमारु कावस्थानंतर पोस्ट हावेस्ट मीनवयेट अर्थात कावणी वस्थापन आणि सप्लाय केन मीनवयेट महत्त्वाचे असते, याबाबट माहिते व्यवस्थान आणि करनार का भगवार हारूना व अक्ता. याकावर माहिता हार्याः अनिकाइर कार्यास्थात हाकार्याः (स. १३) होष्याः आहे. यास रोतासाहार्ये सप्ताप योग मीचार्येट क्रोसेसिंग, पीकांजिग आणि मार्केटिंग इत्यादीविषयी मार्गदर्शन होर्डल. प्रति क्रक्ती पायरो सपये शुरूक आहे.



भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग सीमा शुल्क आयुक्त याचे कार्यालय जीवा प्रकल, जीरतये प्रकर, ११/ ३ समूर गेड पुगे ४११००१.

भरती अधिसूखना विषय : खालील तिर्वित्व हुए 'सो' (यॉन-मिलडेड / गॉन-मिलिड्स्क्र) भारतीय विश्वित्वका भारतीय क्रिक्त (विश्वित्वका अभ्यास करन थोग्य भारतीय वारतीय वेशेवसा अर्थ सामित सामित क्रिक्त अर्थ सामित क्रांतित सामित अर्थ सामित क्रिक्त क्रिक्त सामित क्रिक्त प्रकार क्रिक्त सामित सामित क्रिक्त सामित सामित क्रिक्त सामित साम

4.M.	प्रस्थे राव	रिक्त पर्शाची प्रेयमा	चव
01.	इंकिन्याचेट	01 (अनुसूचित जाती)	18 से 30 वर
02.	अर्थितन	01 (अनुसृषित जनजाती)	18 से 30 वर
03.	देखसम्ब	01 (शामान्य वर्ग)	18 8 25 4
04.	क्रिनेंग (शक्ति)	05 (2 सामान्य कां, 1 आर्थिक मागास कां, 1 इतर मागास कां, 1 अनुस्थित जाती)	18 के 25 W
05.	rufte	02 (1 अनुसूचित जनजाती, 1 इतर मागास वर्ग)	18 से 25 क
08.	इंडरियुवल क्रमीक्लक वर्कर	03 (3 सामान्य वर्ग)	18 से 25 W
केंत्र सरकार अवेनिक कर्मकारी		निवृत्त वेजी ज्या कर्नकाऱ्यांनी किमान ३ आणि निरंतर सेवा प्रदान केली आहे, त	

इता मागास वर्ग (किनो भेजर लोहून) बनुश्चित जाती / अनुश्चित जाती / अनुश्चित जाता /



LAXMI ORGANIC INDUSTRIES LIMITED

			All amoun	ts in Indian Ru	pees millions		
		Consolidated					
Sr. No.		Quarter ended 30.05.2021 (unaudited)	Quarter ended 31.03.2021 (audited) (Refer note 3)	Quarter ended 30.05,2020 (unaudited)	Year ended 31.03.2021 (audited)		
1 2	Total Income from Operations Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	7,406 1,359	5,213 487	4,041 275	17,731 1,584		
3	Net Profit for the period before Tex (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,359	487	275	1,584		
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,023	364	214	1.271		
5	Total Comprehensive Income for the period	1,013	359	208	1,267		
6	Equity Share Capital	527	527	450	527		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings per share (in Rupses) per Rs. 2/- share				10,346		
	Basic Diluted	3.88 3.85	1.56 1.55	0.95 0.95	5.59 5.58		

-	Diluted	3.85	1.55	0.95	5.58
			Stanc	lalone	
Sr. No.		30.06.2021 (unaudited)	Quarter ended 31.03.2021 (audited) (Refer note 3)	Quarter ended 30.06.2020 (unaudited)	Year ended 31.03.2021 (audited)
1	Total Income from Operations	6,952	4,708	3,555	16,156
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,291	428	244	1,513
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,291	426	244	1,513
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	987	312	186	1,226
5	Total Comprehensive Income for the period	977	311	186	1,225
8	Equity Share Capital	527	527	450	527
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				10,445
8	Earnings per share (in Rupees) per Rs. 2/- share Basic Diluted	3.74 3.71	1.34 1.32	0.83 0.83	5.40 5.38

DButted

3.7.1 1.3.2 U.5.5 5.38

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Rasults filed with the Slock Exchange under Regulations 20 the 5EBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2016. The full format of the Quarterly Financial Rasults serable on the Slock Exchanges website: www.bsaindis.com and swer.neshrids.com and also on the Company's website: www.lsami.com
The financial results have been reviewed by the Audit Committee of the Board at their meeting held on August 9, 2021 and approved by the Goard of Direction of the Company at their meeting held on August 9, 2021. The signer for the quarter model March 31, 2021 and derived figures from full year suicilid financial statements and unauditied. The Signer for the countries model March 31, 2021 are derived figures from full year suicilid financial statements and unauditied countries. The Company has a servicised necessary diagnose to ensure that such results provide a low and fair view of its efficiency actions. The Company has a servicised necessary diagnose to ensure that also results or year of fair view of its efficiency that the Annual General Meeting of the Company held on July 22 and 23, 2021 the said dividend was approved by the shareholders in the Annual General Meeting of the Company held on July 22 and 23, 2021 in Related district and consequent overflow of Savitri ever caused flooding in the Specially himsenside financial control unit. Taking all the necessary suidely precurations, the Company stud down the plant. The Company is in the process of assessing demange and has begun restoration activities. The Company is adequately married for the directions.

· 性質 性糖素

0000

Mumbal agust 09, 2021

0000



VIP CLOTHING LIMITED

Registered Office: C-6, Road No. 22, M.I.D.C., Andheri (East), Mumbai - 400 093. Website: www.vipolothing.in Email ID: Investor relations @viporg.com. Tel: 91-9265 7624, 2825 7627 Fax: 91-22-6837 1023, CIN: 118101M611961PLC05660

EXTRACT OF THE UN-AUDITED (STANDALONE)
FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2021

	(? In Lak					
Sr. No.	Particulars	Quarter Year Ended			Year Ended	
		Un-audited	Audited 31.03.2021	Un-audited 30.06.2020	Audited 31.03.2021	
		30.06.2021				
1	Total Income from Operations (Net)	2,404.15	4,256.85	1,777.02	14,511.84	
2	Net Profit / (Lose) from ordinary activities after tax	(397.61)	(22.04)	(506.01)	(102.23	
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(397.61)	(22.04)	(505.01)	(102.23)	
4	Equity Share Capital	1,651.93	1,651.93	1,651.93	1,651.93	
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Salance Sheet of previous year)	11,518.56	11,653.29	11,502.50	11,853.29	
8	Earnings Per Share (balors extraordinary Items) (Face Value of ₹ 2/- each)					
	a) Basic :	(0.49)	(0.02)	(0.62)	(0.13)	
	b) Diluted:	(0.49)	(0.02)	(0.62)	(0.13)	
7	Earnings Per Share (after extraordinary items) (Face Value of ₹ 2/- each)					
	a) Basic :	(0.49)	(0.02)	(0.62)	(0.13)	
	b) Diluted :	(0.49)	(0.02)	(0.62)	(0.13)	

Name of the last

600

For VIP Clothing Limits Sd/-Surdi Pathere sirman & Managing Dis

0000

172.16.0.114/epaperapp/FlashClient/Show_Story_IPad.aspx?storySrc=aHR0cDovtzE3Mi4xNi4wi_ExNC9FcGFwZXJEYXRhL1Nha2FsL011bWJhaS8yMDfxLzA4LzExL01haW4vU2FrYWxfTXV(YmFpXzlwMjFfMDhfMTFf7WFpbl9EQV8wMDdfUFluan8h.jhBnPTx=8.